

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-1197.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर श्री अनूप मिश्रा का मंत्री के पद से दिया गया त्यागपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010 से स्वीकृत किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-1198.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-34-2008-एक (1)-1197 दिनांक 2 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 2nd July 2010

No. F. A. 3-34-2008-ONE (1)-1197.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, is pleased to accept the resignation tendered by Shri Anup Mishra, Minister, with effect from 2nd July 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AVANI VAISH, Chief Secy.